

राज्य सभा सचिवालय

स्कूलों/कॉलेजों तथा अन्य सरकारी संस्थानों के प्रमुख द्वारा छात्रों/कर्मचारियों को सार्वजनिक दीर्घा (पीजी) प्रवेश-पत्र/पत्रों को जारी करने की सिफारिश करने हेतु अपेक्षित सह-पत्र का प्रारूप (आधिकारिक पत्रशीर्ष पर जारी किया जाए)

दिनांक _____

सेवा में,

महासचिव,
राज्य सभा

विषय: राज्य सभा की बैठक के लिए _____ के छात्रों/कर्मचारियों हेतु सार्वजनिक दीर्घा प्रवेश-पत्रों का जारी किया जाना।

महोदय,

कृपया _____ (स्कूल/कॉलेज/सरकारी संस्थान का नाम) के छात्रों/ कर्मचारियों हेतु संलग्न प्रारूप में दिए गए ब्यौरे के अनुसार दिनांक _____ को होने वाली राज्य सभा की बैठक की कार्यवाही देखने के लिए सार्वजनिक दीर्घा प्रवेश -पत्र उपलब्ध कराएं।

2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि निर्धारित प्रारूप में उल्लिखित सभी छात्र/कर्मचारी _____ (स्कूल/कॉलेज/सरकारी संस्थान का नाम) के वास्तविक छात्र/कर्मचारी हैं और मैं संसद भवन परिसर के भीतर उनके आचरण और व्यवहार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ।

भवदीय/भवदीया,

हस्ताक्षर: _____

स्कूल/कॉलेज/सरकारी संस्थान के प्रमुख का

नाम _____

आधिकारिक मुहर और दूरभाष संख्या _____

स्कूलों / कॉलेजों / सरकारी संस्थानों के प्रमुख के लिए उनके छात्रों / कर्मचारियों को सार्वजनिक-दीर्घा प्रवेश-पत्र जारी करने हेतु अनुदेश:-

(i) अनुरोध निर्धारित प्रारूप में स्कूल / कॉलेज / सरकारी संस्थान के आधिकारिक पत्रशीर्ष पर पत्र के माध्यम से राज्य सभा के महासचिव को भेजा जाना चाहिए।

(ii) जिस तिथि की बैठक के लिए सार्वजनिक प्रवेश-पत्र चाहिए/चाहिए उससे कम से कम दो दिन पूर्व के कार्य दिवस को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक यह आवेदन सूचना कार्यालय में जमा कर देना चाहिए।

(iii) यदि समस्त अपेक्षित विवरण नहीं दिए गए हैं, तो आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) 10 वर्ष से कम आयु के छात्रों को दीर्घा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) प्रवेश-पत्र दर्शकों को सीधा नहीं सौंपा जाएगा, अपितु उक्त स्कूल/कॉलेज/सरकारी संस्थान के प्रमुख द्वारा लिखित में प्राधिकृत किए गए कर्मचारी अथवा किसी व्यक्ति को सौंपा जाएगा।

(vi) यदि प्रवेश-पत्र को कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जाना है, तो ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत करते हुए एक लिखित प्राधिकार पत्र उस व्यक्ति के फोटो आईडी पूफ के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उन छात्रों/कर्मचारियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र, जिनके लिए सार्वजनिक दीर्घा (पीजी)
प्रवेश-पत्र अपेक्षित है/हैं

छात्रों/कर्मचारियों का पूरा नाम (मोटे अक्षरों में)	पिता/पति का पूरा नाम (मोटे अक्षरों में)	आयु	व्यवसाय	छात्रों/कर्मचारियों का स्थायी पता/पते	छात्रों/कर्मचारियों का दिल्ली का पता/पते	राष्ट्रीयता और पासपोर्ट की प्रतिलिपि सहित पासपोर्ट संख्या (केवल विदेशी नागरिकों के लिए)

हस्ताक्षर: _____

स्कूल/कॉलेज/सरकारी संस्थान के प्रमुख का नाम _____

आधिकारिक मुहर _____